



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 वैशाख 1936 (श0)  
(सं0 पटना 413) पटना, बुधवार, 7 मई 2014

---

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

9 मार्च 2014

सं० 8/आ० (राज०नि०)—1-08/2014-1076—श्री राजन कुमार गुप्ता तत्कालीन जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ) सम्प्रति जिला अवर निबंधक, रोहतास (सासाराम) को दिनांक 25.05.2007 को धावा दल द्वारा उनके आवास की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके शयन कक्ष में रखे एक आलमीरा के ऊपर चेकदार रूमाल से ढका हुआ ₹10000/—(दस हजार) रू० रिश्वत का पाया गया, जिसमें एक-एक हजार के दस नोट, जो प्री ट्रैप ममोरेंडम में अंकित जी०सी० नोटों के नंबरों के अनुसार थे, पाया गया। जिसके लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 25.05.2007 को कैमूर से गिरफ्तार कर निगरानी थाना कांड सं० 067/2007, दिनांक 26.05.2007 में धारा-07/13 (2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भ्र०नि०अधि०, 1988 के अधीन प्राथमिकी दर्ज कर उनको अभियुक्त बनाया गया, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 के प्रतिकूल है।

02. अतएव, श्री राजन कुमार गुप्ता, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ) सम्प्रति जिला अवर निबंधक, रोहतास (सासाराम) को कदाचार के आरोप में आदेश निर्गत की तिथि से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत पुनः निलम्बित किया जाता है।

03. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

04. इन्हें निलम्बन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 (1) के अनुरूप जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

अभय राज,

सरकार के अपर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 413-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>